

/:1:/

प्रथम श्रेणी,द्वितीय श्रेणी एवं कार्यपालिक तृतीय श्रेणी अधिकारी का
गोपनीय प्रतिवेदन

(वर्ष—

को समाप्त होने वाली अवधि)

भाग—एक

1— अधिकारी का नाम —

2— पदनाम —

3— नियोजन का प्रकार —

4— पदस्थान का जिला —

/:2:/

भाग-दो

प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा भरा जावे

(1) कार्य का संक्षिप्त विवरण:-

(2) कृपया आपके लिये निर्धारित गुणात्मक/भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों को प्राथमिकता क्रम में और प्रत्येक लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि का उल्लेख करें ।

(3) (अ) कृपया कालम के संदर्भ में लक्ष्यों/उद्देश्यों की पूर्ति में कमी का संक्षिप्त विवरण दें। यदि लक्ष्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई बाधा आई हो तो बतायें।

(ब) कृपया उन मदों को भी दर्शाये जिनमें अति महत्वपूर्ण उपलब्धियां और आपका सहयोग रहा हो।

भाग-तीन

(अ) प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भरा जाये

कार्य का स्वरूप एवं प्रकार :-

:1: कृपया अधिकारी द्वारा भरे गये भाग-दो पर विशेष रूप से लक्ष्यों और उद्देश्यों, उपलब्धियों, कमियों से संबंधित उत्तरों से सहगति संबंधी टीप दें। यदि किसी उद्देश्य की पूर्ति में कोई बाधा हो तो उसका भी उल्लेख करें।

:2: किये गये कार्य की गुणवत्ता:-

कृपया अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता, स्तर और कार्यक्रम का उद्देश्य और बाधाएं यदि कोई हों, के संबंध में टीप दें।

:3: कार्य क्षेत्र का ज्ञान-

कृपया विशिष्ट रूप से इनमें से प्रत्येक पर टीप दें : कार्यो के ज्ञान का स्तर,संबंधित अनुदेश और उनका लागू किया जाना।

(ब) विशेषता

:1: कार्य के प्रति दृष्टिकोण :-

अधिकारी द्वारा किस हद तक कार्य समर्पण, प्रेरणा,उसकी इच्छा और पहल कर व्यवस्थित रूप से किया गया, पर टीप दें।

:2: निर्णय लेने की योग्यता :-

निर्णय लेने के गुण, पक्ष विपक्ष को देखते हुए वैकल्पिक योग्यता पर टीप दें ।

:3: पहल :-

अधिकारी की अप्रत्यक्ष परिस्थितियों से निपटने की क्षमता और उपाय और कार्य के नवीन क्षेत्रों में स्वेच्छा से अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेने के संबंध में टीप दें ।

:4: प्रोत्साहन और प्रेरणा की योग्यता :-

कृपया अधिकारी की प्रेरणा देने, स्वयं के आचरण और विश्वास से सहयोग प्राप्त करने की क्षमता पर टीप दें ।

:5: संसूचना कौशल (लिखित और मौखिक) :-

अधिकारी संसूचना एवं तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के संबंध में टीप दें ।

:6: व्यक्तिगत संबंध एवं समूह कार्य (टीम वर्क) :-

उच्च अधिकारियों, सहयोगियों एवं अधीनस्थों से संबंध, दूसरों के विचारों की सराहना एवं सदभावना से ली गई सलाह की योग्यता का उल्लेख करें। कृपया टीम के सदस्य के रूप में कार्यक्षमता और टीम भावना को बढ़ाने और टीम द्वारा किये गये कार्य की उत्तमता पर भी टीप दें।

:7: आम जनता के साथ संबंध :-

अधिकारी की आम जनता तक पहुंच और उनकी आवश्यकताओं की प्रति संवेदनशीलता।

(स) अतिरिक्त गुण(विशेषता)

:1: योजना बनाने की योग्यता:-

क्या अधिकारी में समस्याओं, कार्य की आवश्यकताओं का पूर्व अनुमान लगा कर तदनुसार योजना बनाने और संभावित व्यय उपलब्ध कराने की योग्यता है ?

:2: निरीक्षण की योग्यता :-

1. कार्य का समुचित बंटवारा :-

2. कार्य करवाने के लिये उचित कर्मियों का चुनाव :-

3. कार्य करने में मार्गदर्शन :-

4. कार्य की समीक्षा :-

भाग - चार

::सामान्य ::

1. निष्ठा :-

2. श्रेणी :- (उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / औसत / औसत से कम)

(उत्कृष्ट श्रेणीकरण तब तक न किया जाये जब तक कि अपवाद-स्वरूप गुण और कार्य संपादन न देखा गया हो, ऐसी श्रेणी का आधार भी स्पष्ट बताया जाना चाहिए)

(

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर

नाम _____

पदनाम _____

(प्रतिवेदन अवधि में)